



**स्मरणीय
तथ्य**

अर्थव्यवस्था



अहमदाबाद



बेंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



रांची

अभ्यास मेन्स 2025

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा
(GS + निबंध + वैकल्पिक विषय)
मॉक टेस्ट (ऑफ़लाइन)

Scan to Know More
and Register



पेपर	GS - I & II	GS - III & IV	निबंध	वैकल्पिक विषय
तिथि	26 जुलाई	27 जुलाई	2 अगस्त	I & II 3 अगस्त

पंजीकरण करें: www.visionias.in/abhyaas

वैकल्पिक
विषय

नृविज्ञान | भूगोल | हिंदी | इतिहास | गणित | दर्शनशास्त्र | भौतिकी | राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध | लोक प्रशासन | समाजशास्त्र

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | BHUBANESWAR | CHANDIGARH | CHENNAI | CHHATARPUR (MP) | DEHRADUN | DELHI - KAROL BAGH | DELHI - MUKHERJEE NAGAR | GHAZIABAD | GORAKHPUR | GURUGRAM | GUWAHATI | HYDERABAD | INDORE | JABALPUR | JAIPUR | JAMMU | JODHPUR | KANPUR | KOLKATA | KOTA | LUCKNOW | MUMBAI | NAGPUR | NOIDA | ORAI | PATNA | PRAYAGRAJ | PUNE | RAIPUR | RANCHI | ROHTAK | SHIMLA | THIRUVANANTHAPURAM | VARANASI | VIJAYAWADA | VISAKHAPATNAM



मुख्य परीक्षा

2025 के लिए 1 वर्ष का

समसामयिक घटनाक्रम

केवल 60 घंटे में

ENGLISH MEDIUM
1 July | 5 PM

हिन्दी माध्यम
5 July | 5 PM

- द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।
- मुख्य परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।
- मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक वर्ष की समसामयिक घटनाओं की खंड-वार बुकलेट्स (ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिये मटेरियल केवल सॉफ्ट कॉपी में ही उपलब्ध)
- लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यर्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग में लचीलापन चाहते हैं।



विषय सूची

1. भारतीय अर्थव्यवस्था: एक नज़र में	5	19. कृषि ऋण	8
2. भारत का संरचनात्मक परिवर्तन	5	20. संबद्ध क्षेत्रक	8
3. रोजगार	5	21. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक	8
4. कौशल विकास	5	22. MSME क्षेत्रक	8
5. समावेशी विकास	5	23. इलेक्ट्रॉनिक घटक क्षेत्रक	9
6. निर्धनता	5	24. भारत की जैव अर्थव्यवस्था	9
7. आर्थिक संकेतक	6	25. डिजिटल अर्थव्यवस्था	9
8. वित्तीय समावेशन	6	26. क्रिएटिव इकोनॉमी या ऑरेंज इकोनॉमी	9
9. असमानता	6	27. पर्यटन क्षेत्रक	9
10. ग्रामीण विकास	6	28. बीमा क्षेत्रक	9
11. भूमि सुधार	6	29. अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था	9
12. राज्य वित्त	7	30. सड़क सुरक्षा	10
13. प्रत्यक्ष कराधान	7	31. कोयला क्षेत्रक	10
14. बैंकिंग	7	32. इस्पात क्षेत्रक	10
15. भुगतान प्रणाली	7	33. डीप टेक	10
16. निर्यात क्षेत्रक	7	34. वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2024 और सामाजिक उद्यमिता	10
17. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)	7	35. वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC)	10
18. भारत में विप्रेषण या रेमिटेंस	8		



फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

• प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

• मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान

• एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग

• अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास

• योजनाबद्ध तैयारी हेतु करंट ओरिएंटेड अप्रोच

• नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन

• प्री फाउंडेशन कक्षाएं

• सीसेट कक्षाएं

• PT 365 कक्षाएं

• MAINS 365 कक्षाएं

• PT टेस्ट सीरीज

• मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज

• निबंध टेस्ट सीरीज

• सीसेट टेस्ट सीरीज

• निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं

• करंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

DELHI : 15 जुलाई, 2 PM

JAIPUR : 24 जून

JODHPUR : 2 जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS app





प्रिय अभ्यर्थियों,



UPSC मुख्य परीक्षा के प्रतिस्पर्धी माहौल में आपके उत्तरों में आंकड़े, तथ्यों और उदाहरणों को शामिल करने के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है।



ये घटक एक आकर्षक और प्रेरक अनुक्रिया के आधार के रूप में काम करते हैं, जो आपके उत्तर को एक सामान्य लेखन से एक बेहतर तरीके से प्रमाणित तर्क की ओर ले जाते हैं।



आपकी सहायता के लिए, हमने VisionIAS के Mains 365 पठन सामग्री से सार रूप में आंकड़े, तथ्यों और उदाहरणों का संकलन तैयार किया है। जैसा कि आप सभी को पता है Mains 365 पठन सामग्री करेंट अफेयर्स के व्यापक कवरेज के लिए प्रसिद्ध है।



इस डोक्यूमेंट का लेआउट आपके उत्तर में क्विक रेफ़रेंस और तथ्यों आदि के आसान समेकन के लिए डिज़ाइन किया गया है।



इस सार रूपी जानकारी का लाभ उठाने से आपको अधिक अंक प्राप्त करने के लिए जरूरी व्यापक, सूचनात्मक और आकर्षक उत्तर तैयार करने में मदद मिलेगी।



↓ Mains 365 डोक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

↓ स्मार्ट क्वालिटी कंटेंट को प्राप्त करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए



ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम

कॉम्प्रेहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इन्ोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली

30 टेस्ट	
5 फंडामेंटल टेस्ट	15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट	



2026

**ENGLISH MEDIUM
13 JULY**

**हिन्दी माध्यम
13 जुलाई**



भारतीय अर्थव्यवस्था: एक नज़र में

- ♦ 2024-25 में चालू कीमतों पर भारत की GDP 331.03 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है।
- ♦ वर्तमान में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- ♦ भारत से 2023-24 में 778.21 बिलियन यू.एस. डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया गया।
- ♦ बाह्य ऋण-GDP अनुपात 19.1% था।
- ♦ भारत में चरम गरीबी 2011-12 में 16.2% थी, जो 2022-23 में कम होकर केवल 2.3% रह गई



भारत का संरचनात्मक परिवर्तन

- ♦ क्षेत्रक-वार असंतुलन: अभी भी समग्र रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी 42% है।
- ♦ 2019 में लगभग 12 प्रतिशत वर्कर्स निर्माण (कंस्ट्रक्शन) क्षेत्र में संलग्न थे।
- ♦ भारत को 2050 तक अपनी बढ़ती आबादी के लिए कम-से-कम 143-324 मिलियन रोजगार के अवसर सृजित करने होंगे।
- ♦ भारत की श्रम शक्ति के अन्य देशों की तुलना में औपचारिक शिक्षा में कम वर्ष व्यतीत किए जाने के कारण भारत में शिक्षा की गुणवत्ता निम्न स्तर की बनी हुई है। (ASER, 2023)



रोजगार

- ♦ अप्रैल 2025 में भारत में बेरोजगारी दर 5.1% थी। शहरी बेरोजगारी दर 6.5% है, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.5% दर्ज की गई है। (PLFS 2024)
- ♦ श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 59.6% है। (PLFS 2024)
- ♦ कुल कार्यबल का लगभग 45.76% हिस्सा कृषि में लगा हुआ है। (मौसमी रोजगार)



कौशल विकास

- ♦ भारत की 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की है।
- ♦ 15-29 वर्ष आयु वर्ग के केवल 4.4% युवाओं को औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है (आर्थिक सर्वेक्षण, 2023-24)
- ♦ अगले पांच वर्षों में, वैश्विक स्तर पर 23% नौकरियों की प्रकृति में बदलाव आएगा (WEF की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, 2023)।
- ♦ कौशल की कमी के कारण भारत के 90% से ज्यादा कामगार अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं।



समावेशी विकास

- ♦ चरम गरीबी में रहने वाले भारतीयों की संख्या 431 मिलियन (1990) से घटकर 129 मिलियन (2024) रह गई है। (विश्व बैंक)
- ♦ 2023 के अंत तक, भारत के सबसे अमीर नागरिकों के पास देश की 40.1 प्रतिशत संपत्ति थी (वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब स्टडी, 2024)।
- ♦ बेरोजगारी दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई (5.0% से 4.9%) (PLFS डेटा)



निर्धनता

- ♦ निर्धनता हेडकाउंट अनुपात 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गया। पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल आए हैं।
- ♦ चरम गरीबी में रहने वाले भारतीयों की संख्या 431 मिलियन (1990) से घटकर 129 मिलियन (2024) रह गई है। (विश्व बैंक)
- ♦ भारत में 53% महिलाएं घर की देखभाल की ज़िम्मेदारियों के कारण कार्यबल में शामिल नहीं हैं (ILO)।



आर्थिक संकेतक

- 2024-25 में **चालू कीमतों पर भारत की GDP 331.03 लाख करोड़ रुपये** अनुमानित है।
- दिसंबर, 2024 में भारत का बाह्य (विदेशी) ऋण 717.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। **बाह्य ऋण-GDP अनुपात 19.1%** था।
- भारत को **2047 तक उच्च आय वाला देश (HIC)** बनने के लिए अगले **22 वर्षों में औसतन 7.8% की दर से विकास** करना होगा।
- औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (MPCE) **ग्रामीण भारत में 4,122 रुपये** और **शहरी भारत में 6,996 रुपये** है। (HCES: 2023-24)
- भारत में सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** का केवल **0.64%** ही अनुसंधान और विकास (R&D) पर खर्च किया जाता है। वहीं दूसरी ओर, **चीन** में यह अनुपात **2.4%** और **संयुक्त राज्य अमेरिका** में **3.47%** है।



वित्तीय समावेशन

- भारत में लगभग 78% वयस्क आबादी के पास बैंक खाता है (**विश्व बैंक ग्लोबल फ़िनडेक्स डेटाबेस, 2021**)
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का मार्च 2024 के लिए **वित्तीय समावेशन सूचकांक मूल्य 64.2** था, जबकि मार्च 2023 में यह **60.1** था।
- NABARD का **SHG-BLP** विश्व का सबसे बड़ा माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम **17.8 करोड़ परिवारों को 144 लाख** से अधिक SHGs के माध्यम से सशक्त बना रहा है।
- 2016 से अब तक DBT के माध्यम से **90 करोड़ लोगों को 450 से अधिक योजनाओं का लाभ पहुंचाया** गया है।
- अगस्त, 2024 तक **53.13 करोड़ जन धन खाते** खोले जा चुके थे।



असमानता

- भारत के **सबसे धनी 1%** लोगों के पास देश की सकल राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा है (वर्ल्ड इक्वेलिटी लैब रिपोर्ट, 2022-23)
- सबसे धनी 5%** भारतीयों के पास देश की 60% से अधिक संपत्ति है।
- ग्रामीण-शहरी विभाजन:** औसत MPCE **ग्रामीण भारत में 3,773 रुपये** और **शहरी भारत में 6,459 रुपये** है।
- पारिश्रमिक के स्तर पर लैंगिक भेदभाव या असमानता:** विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत में, कुल श्रम आधारित आय का 82% पुरुष कमाते हैं, जबकि महिलाएं केवल 18% कमाती हैं।



ग्रामीण विकास

- कृषि निर्यात 2022-23 में 53.2 बिलियन डॉलर से घटकर 2023-24 में 48.9 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि आयात 8% घटकर 32.8 बिलियन डॉलर (2023-24) हो गया।
- 2022 में **विश्व कृषि उत्पाद निर्यात और आयात में भारत की हिस्सेदारी क्रमशः 2.4 प्रतिशत और 1.9 प्रतिशत** थी। (WTO की व्यापार सांख्यिकीय समीक्षा, 2023)



भूमि सुधार

- 2010-11 में **कृषि जोत का औसत आकार 1.15 हेक्टेयर** था।
- भूमि का **10% से अधिक हिस्सा** गैर-कृषि उपयोग में है।
- कुल भौगोलिक क्षेत्र के **25% हिस्से** पर वन है।



राज्य वित्त

- ♦ **सकल राजकोषीय घाटा (GFD) में गिरावट:** भारतीय राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा 1998-99 से 2003-04 के दौरान GDP के औसतन 4.3% के बराबर था। यह 2004-05 से 2023-24 के दौरान से घटकर 2.7% हो गया।
- ♦ **राजस्व घाटा:** राज्यों ने 2021-22 से 2023-24 के दौरान राजस्व घाटा GDP के 0.2% स्तर पर बनाए रखा है।
- ♦ **व्यय की गुणवत्ता में सुधार:** पूंजीगत व्यय 2022-23 में GDP का 2.2% था, जो बढ़कर 2023-24 में 2.6% हो गया।
- ♦ **राज्यों का ऋण:** यह मार्च, 2004 के अंत में GDP के 31.8% के बराबर था, जो घटकर मार्च, 2024 के अंत में GDP के 28.5% पर आ गया।



प्रत्यक्ष कराधान

- ♦ **वित्त वर्ष 2024-25 में कर-GDP अनुपात 11.7%** (प्रत्यक्ष करों के लिए 6.7% और अप्रत्यक्ष करों के लिए 5.0%)
- ♦ **निगम कर (कॉर्पोरेट टैक्स) और व्यक्तिगत आयकर** का प्रत्यक्ष कर में सर्वाधिक योगदान है।
- ♦ वित्त वर्ष 2021-22 में **डायरेक्ट टैक्स बॉयंसी** 2.52 थी, जो पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक थी, लेकिन 2022-23 में यह घटकर 1.18 हो गई।
- ♦ **भारत के प्रत्यक्ष कर संग्रह** में पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 में 16.15% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 25.86 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।



बैंकिंग

- ♦ भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs), 21 निजी क्षेत्र के बैंक, 45 विदेशी बैंक आदि हैं।
- ♦ **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA)** अनुपात 13 वर्षों में सबसे कम होकर 2.7% पर आ गया।
- ♦ **GNPA अनुपात** कृषि क्षेत्र के लिए सबसे अधिक (6.2%) और **रिटेल लोन** के लिए सबसे कम (1.2%) रहा है।
- ♦ **वित्त वर्ष 2022-23** में, कुल कृषि ऋण में **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 11.2%** हिस्सेदारी थी।



भुगतान प्रणाली

- ♦ RBI के अनुसार, **भारत में लगभग 50% लेन-देन कैश में होता है।**
- ♦ भारत में **40% से अधिक भुगतान डिजिटल** माध्यम से होते हैं (विश्व में सर्वाधिक डिजिटल लेन-देन)।
- ♦ भारत में मात्रा (वॉल्यूम) के मामले में **डिजिटल भुगतान के 50% हिस्से पर डेबिट कार्ड, UPI और IMPS का प्रभुत्व है।**
- ♦ भारत में मूल्य (वैल्यू) के मामले में **डिजिटल भुगतान के 53% हिस्से पर RTGS और NEFT का प्रभुत्व है।**
- ♦ **2019 में प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन-देन 22.4** रहा। (वर्ष 2014 में यह 2.4 था)।



निर्यात क्षेत्रक

- ♦ 2024-25 में भारत का कुल निर्यात (वस्तुएं और सेवाओं को मिलाकर) **824.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के बराबर था।
- ♦ **2023 में, भारत का वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% और वस्तु निर्यात में 1.8% हिस्सा था।** (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25)
- ♦ अंकटाड के अनुसार, भारत का निर्यात इसके **सकल घरेलू उत्पाद के 23% के बराबर है।**



प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)

- ♦ **2000 से 2024 तक:** सितंबर 2024 में भारत में कुल FDI 1 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया।
- ♦ **वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में महाराष्ट्र को सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ,** उसके बाद कर्नाटक और दिल्ली का स्थान रहा।
- ♦ वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में सबसे अधिक FDI सिंगापुर से हुआ, उसके बाद मॉरीशस और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान रहा।
- ♦ वित्त वर्ष 2023-24 में **कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र को सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ,** इसके बाद सेवा क्षेत्र का स्थान रहा।



भारत में विप्रेषण या रेमिटेंस

- 2024 में वैश्विक विप्रेषण का **14.3% (\$129 बिलियन)** आया, जो अब तक का सर्वाधिक है (विश्व बैंक)।
- शीर्ष 3 स्रोत देश (2023-24):** अमेरिका (27.7%) > UAE > UK
- भारत के रेमिटेंस में **खाड़ी देशों की हिस्सेदारी कम होकर 38%** रह गई है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 50% से अधिक हो गई है।
- रेमिटेंस प्राप्तकर्ता शीर्ष 3 राज्य (2023-24):** महाराष्ट्र (20.5%) > केरल > तमिलनाडु।



कृषि ऋण

- पिछले दशक (2014-15 से 2023-24) में **कृषि ऋण वितरण में औसतन 13% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर** दर्ज की गई है।
- वित्त वर्ष 2023-24 में **कृषि ऋण वितरण 25.48 लाख करोड़ रुपये** तक पहुंच गया।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने कृषि के लिए **27.5 लाख करोड़ रुपये ऋण वितरण लक्ष्य** निर्धारित किया है जिसमें **संबद्ध गतिविधियों के लिए 4.20 लाख करोड़ रुपये** ऋण वितरण के उप-लक्ष्य शामिल हैं।
- केवल 41% लघु और सीमांत किसान**, जिनके पास 86% कृषि योग्य भूमि है, वही किसान **बैंक ऋण** का लाभ ले पाते हैं।



संबद्ध क्षेत्रक

- विश्व में पशुधन की सबसे अधिक संख्या** भारत में है।
- भारत, **भैंस के मांस का सबसे बड़ा उत्पादक** और **बकरी के मांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश** है।
- GDP में योगदान:** 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रक के **कुल सकल मूल्य वर्धन (GVA)** में **पशुधन क्षेत्रक का योगदान 30.19%** था तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल GVA में **पशुधन क्षेत्रक का योगदान 5.73%** था।
- पशुधन क्षेत्रक**, भारत में 70% से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है।
- भारत के बागवानी क्षेत्रक का कृषि GVA में योगदान 33%** है।
- फल और सब्जियों के उत्पादन** के मामले में चीन के बाद **भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर** है।
- विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश**, वैश्विक मछली उत्पादन में **8% का योगदान** है।
- 1.9 मिलियन टन के साथ **भारत अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान पर** है।



खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक

- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक एक सनराइज सेक्टर** है। इसका चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 7.3% (वित्त वर्ष 2015-2022) है। इसका योगदान 2020-21 में विनिर्माण GVA में 10.54% और **कृषि GVA में 11.57%** था।
- 2021-22 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में **20.68 लाख कर्मचारी कार्य कर रहे थे।**
- देश भर में स्वीकृत 41 में से **24 मेगा फूड पार्क कार्य कर रहे हैं।**
- कृषि-निर्यात में **प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी 2023-24 में बढ़कर 23.4%** हो गई।



MSME क्षेत्रक

- योगदान: सकल घरेलू उत्पाद में 30% और कुल निर्यात में लगभग 45% तक।**
- विनिर्माण में योगदान: 36% तक।**
- रोजगार: लगभग 7.5 करोड़ लोग।**



इलेक्ट्रॉनिक घटक क्षेत्रक

- ♦ **आर्थिक क्षमता:** 2030 तक 500 बिलियन डॉलर।
- ♦ **नियति वृद्धि:** वित्त वर्ष 2015 से 20% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)।
- ♦ **भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक** की वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में **4%** की हिस्सेदारी है।
- ♦ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक में **घरेलू उत्पादन** 9.52 लाख करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2024) है।



भारत की जैव अर्थव्यवस्था

- ♦ **आर्थिक संवृद्धि:** वर्ष 2050 तक इसके वैश्विक GDP के **12%** तक पहुंचने की उम्मीद है।
- ♦ **खाद्य सुरक्षा:** अनुवांशिक रूप से संशोधित तकनीक ने फसल की पैदावार में **21% की वृद्धि** की है।
- ♦ **रोजगार के अवसर:** 2030 तक जैव अर्थव्यवस्था से **35 मिलियन रोजगार** सृजित होंगे।



डिजिटल अर्थव्यवस्था

- ♦ भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट-2024 के अनुसार- **भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटाइज़्ड देश** है।
- ♦ भारत की **राष्ट्रीय आय में 11.74% का योगदान**।
- ♦ **सकल मूल्य वर्धन (GVA)** में **7.83% का योगदान** (सबसे अधिक योगदान)



क्रिएटिव इकोनॉमी या ऑरेंज इकोनॉमी

- ♦ **GDP में योगदान:** क्रिएटिव कारोबार का देश के **समग्र GVA में लगभग 20% का योगदान** है।
- ♦ **नियति:** 2010 से 2019 तक क्रिएटिव गुड्स के निर्यात में **1.5 गुना वृद्धि** हुई है।
- ♦ **रोजगार:** यह अब **लगभग 30 बिलियन डॉलर का उद्योग** बन गया है और **भारत की लगभग 8% कार्यशील आबादी** को रोजगार देता है।



पर्यटन क्षेत्रक

- ♦ वर्ष 2023 में **18.89 मिलियन अंतराष्ट्रीय पर्यटकों** का आगमन हुआ था।
- ♦ वर्ष 2023 के दौरान **9.52 मिलियन विदेशी पर्यटकों** का आगमन हुआ था।
- ♦ वर्ष 2023 में अंतराष्ट्रीय पर्यटक आगमन के मामले में **24वां स्थान**। (संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन बैरोमीटर)।
- ♦ विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित **यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 39वां स्थान**।



बीमा क्षेत्रक

- ♦ विश्व स्तर पर **10वां सबसे बड़ा बीमा क्षेत्रक**।
- ♦ जीवन बीमा सेगमेंट: **>76% हिस्सेदारी**।
- ♦ **संभावना:** 2032 तक **छठा सबसे बड़ा** बीमा बाज़ार। (स्विस री रिपोर्ट)
- ♦ **बीमा पैठ:** **> 3.7% (2023-24)**, (वैश्विक औसत: 7%)।
- ♦ **बीमा घनत्व:** **95 डॉलर (2023-24)**, (वैश्विक औसत: \$874)



अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

- ♦ वैश्विक स्तर पर भारत **5वें स्थान पर** है।
- ♦ **वृद्धि की संभावना:** 2033 तक 44 बिलियन डॉलर होने की संभावना है।
- ♦ **निजी क्षेत्रक:** >200 अंतरिक्ष-आधारित स्टार्ट-अप्स।



सड़क सुरक्षा

- ♦ **WHO की सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023** के अनुसार, 2010 से 2021 के बीच भारत में सड़क हादसों से होने वाली मौतों में **15% की वृद्धि** हुई है।
- ♦ केवल 2024 में ही, भारत में **1.8 लाख लोगों** की जान सड़क दुर्घटनाओं में चली गई थी।
- ♦ इन दुर्घटनाओं में **66% पीड़ित** 18 से 34 वर्ष के युवा थे।
- ♦ **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति (2010)**: यह जागरूकता अभियान, प्रवर्तन और सुरक्षित सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देती है।



कोयला क्षेत्रक

- ♦ भारत के पास दुनिया का **5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार** है।
- ♦ भारत दुनिया का **दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता और आयातक** देश है।
- ♦ 2023 में, भारत की कुल बिजली का **50.7% से अधिक उत्पादन कोयला और लिग्नाइट** पर आधारित था।



इस्पात क्षेत्रक

- ♦ **उत्पादन लक्ष्य**: 2034 तक 500 मिलियन टन।
- ♦ **आर्थिक योगदान**: GDP का लगभग 2% तक।
- ♦ **रोजगार के अवसर**: रोजगार गुणक प्रभाव **6.8X** और आउटपुट गुणक प्रभाव **1.4X तक**।



डीप टेक

- ♦ **डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम**: भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के अनुमान के अनुसार, वर्तमान में भारत में **4,000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स** कार्यरत हैं तथा अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या **10,000** तक पहुंच जाएगी।
- ♦ **विश्व में भारत की स्थिति**: डीप टेक स्टार्टअप्स की तीसरी सर्वाधिक संख्या होने के बावजूद, भारत 2023 में **दुनिया के शीर्ष 9 डीप-टेक इकोसिस्टम में छठे स्थान पर था**। (नैसकॉम)
- ♦ भारत के 4,000 डीप-टेक स्टार्टअप्स ने 2024 में 1.6 बिलियन डॉलर आकर्षित किए, जो पिछले साल की तुलना में 78 प्रतिशत की वृद्धि है। (नैसकॉम)



वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2024 और सामाजिक उद्यमिता


- ♦ **भारत विश्व की 133 अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर** है। 2023 में भारत 40वें स्थान पर था।
- ♦ ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट, रचनात्मक आउटपुट, संस्थान और व्यावसायिक आधुनिकता के मामले में भारत **निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं** तथा **मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहले स्थान पर** है।
- ♦ बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के शीर्ष 100 क्लस्टर** में शामिल हैं।
- ♦ **भारत में सामाजिक उद्यमों के लिए अनुमानित बाजार अवसर और क्षमता 2025 तक 8 बिलियन डॉलर** होने की संभावना है।



वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC)

- ♦ **25% से भी कम** बिजनेस लीडर्स अपने GCC परिचालन को भारत से स्थानांतरित करने पर विचार कर रहे हैं। (PwC की रिपोर्ट)
- ♦ भारत में **1,700 से अधिक** वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs) हैं, जो **वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक संख्या** है।
- ♦ **2030 तक** GCC क्षेत्रक का आकार 105 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की संभावना है।

OUR ACHIEVEMENTS



LIVE/ONLINE
Classes Available

www.visionias.in



Foundation Course

GENERAL STUDIES

PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI : 30 JUNE, 8 AM | 8 JULY, 11 AM | 15 JULY, 8 AM
18 JULY, 5 PM | 22 JULY, 11 AM | 25 JULY, 2 PM | 30 JULY, 8 AM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 10 JULY, 8 AM | 29 JULY, 6 PM

हिन्दी माध्यम 15 जुलाई, 2 PM

AHMEDABAD: 12 JULY

BENGALURU: 22 JULY

BHOPAL: 27 JUNE

CHANDIARH: 18 JUNE

HYDERABAD: 14 JULY

JAIPUR: 24 JUNE

JODHPUR: 2 JULY

LUCKNOW: 22 JULY

PUNE: 14 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

► प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI : 15 जुलाई, 2 PM

JAIPUR : 24 जून

JODHPUR : 2 जुलाई



Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.



/visionias.upsc



/c/VisionIASdelhi



/c/VisionIASdelhi



/t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: GMMR 33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005 **CONTACT:** 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

Heartiest Congratulations

to all Successful Candidates

10

in **TOP 10** Selections in **CSE 2024**

from various programs of **Vision IAS**

1

AIR

Shakti Dubey

2

AIR

Harshita Goyal
GS Foundation
Classroom Student

3

AIR

Dongre Archit Parag
GS Foundation
Classroom Student

4

AIR

Shah Margi Chirag

5

AIR

Aakash Garg

6

AIR

Komal Punia

7

AIR

Aayushi Bansal

8

AIR

Raj Krishna Jha

9

AIR

Aditya Vikram Agarwal

10

AIR

Mayank Tripathi

हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में

137

AIR

Ankita Kanti

182

AIR

Ravi Raaz

438

AIR

Mamata

448

AIR

Sukh Ram

509

AIR

Amit Kumar Yadav



DELHI

HEAD OFFICE

33, Pusa Road,
Near Karol Bagh Metro Station,
Opposite Pillar No. 113,
Delhi - 110005

MUKHERJEE NAGAR CENTER

Plot No. 857, Ground Floor,
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab
& Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER

Classroom & Enquiry Office,
above Gate No. 2, GTB Nagar
Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY

Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066



enquiry@visionias.in



[@visioniashindi](https://www.youtube.com/@visioniashindi)



[/visionias.upsc](https://www.facebook.com/visionias.upsc)



[/vision_ias_hindi/](https://www.instagram.com/vision_ias_hindi/)



[/hindi_visionias](https://www.telegram.com/hindi_visionias)



अहमदाबाद



बेंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



रांची